



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 6] नई दिल्ली, मार्च 7—मार्च 13, 2010, शनिवार/फाल्गुन 16—फाल्गुन 22, 1931  
No. 6] NEW DELHI, MARCH 7—MARCH 13, 2010, SATURDAY/PHALGUNA 16—PHALGUNA 22, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं  
Orders and Notifications Issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2010

आ. अ. 10.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से एतद्वारा श्री देबाशीष सेन, आई.ए.एस. (प.बं. : 85) के स्थान पर श्री सुनील कुमार गुप्ता, आई.ए.एस. (1987) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री सुनील कुमार गुप्ता, पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री सुनील कुमार गुप्ता, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम बंगाल के रूप में कार्य करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जायेगा।

[सं.-154/डब्ल्यू.बी./2010]

आदेश से,

आर. के. श्रीवास्तव, सचिव

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

New Delhi, the 2nd March, 2010

**O. N. 10.**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of West Bengal, hereby nominates Shri Sunil Kumar Gupta, IAS(1987) as the Chief Electoral Officer for the State of West Bengal with effect from the date he takes over charge and until further orders, vice Shri Debashis Sen, IAS (WB:85).

2. Shri Sunil Kumar Gupta, shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charge of work under the Government of West Bengal, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Sunil Kumar Gupta, while functioning as the Chief Electoral Officer, West Bengal shall not hold any additional charge, whatsoever under the Government of West Bengal, except that he should be designated as Secretary of the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[No. 154/WB/2010]

By Order,

R. K. SRIVASTAVA, Secy.

**आदेश**

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2010

**आ.अ. 11.**—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मई, 2009 में उत्तराखंड राज्य से हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में तदनुसूची विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, के स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यतः उक्त अभ्यर्थियों ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है अथवा उनके द्वारा दिए गए अभ्यर्थी, यदि कोई हो पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्वारा निरर्हित घोषित करता है :—

**सारणी**

क्र. सं.	निर्वाचन का विवरण	निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम. सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उत्तराखण्ड राज्य से लोक सभा 2009 के लिए साधारण निर्वाचन	5-हरिद्वार	आसिफ खान, राजीव जुयाल मार्ग, रोचीपुरा, निरंजनपुर, डाकखाना - माजरा, जिला - देहरादून।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	-यथा-	-यथा-	रियासल अली, ग्राम लामग्रन्ट, तहसील - रूड़की, जिला - हरिद्वार।	-वही-
3.	-यथा-	-यथा-	अब्बास, ग्राम सेलमपुर, मेहदद, तहसील व जिला हरिद्वार।	-वही-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	उत्तराखण्ड राज्य से लोक सभा 2009 के लिए साधारण निर्वाचन	5-हरिद्वार	शाहिदा बेगम, 361, शास्त्री नगर, बसंत विहार, देहरादून ।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहें ।
5.	-यथा-	-यथा-	पं. शिवम महाराज, मकान नं. 30/2, मो.-कायस्थान, मंगलौर, जिला- हरिद्वार	-वही-
6.	-यथा-	-यथा-	संजय, मकान नं. 38, टियडी, बी.एच.ई.एल., हरिद्वार ।	-वही-

[ सं.-76/उत्तराखण्ड-लो.स./2009(1) ]

आदेश से,

शंगारा राम, प्रधान सचिव

**ORDER**

New Delhi, the 8th March, 2010

**O. N. 11.**—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that the contesting candidates specified in column (4) of the table below at the General Election to the Lok Sabha of Uttarakhand held in May, 2009 as specified in column (2) and held from constituencies correspondingly specified in column (3) against their names have failed to lodge account of their election expenses, as shown in column (5) of the table, as required by the Representation of the People Act, 1951, and to Rules made thereunder;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission, or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order.

**TABLE**

S1. Particulars of Election No.	No. and Name of Constituency	Name and address of contesting candidate	Reason for disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)
1. General Election to the Parliamentary Constituency of Uttarakhand.	05-Haridwar	Asif Khan, Rajiv Juyal Marg, Rochipura Niranjapur, Post-Mazra, District - Dehradun. Riasat Ali,	Failure to lodge accounts of election expenses.
2. -do-	-do-	Village Lamgrunt, Tehsil- Roorkee, District Haridwar. Abbas,	-do-
3. -do-	-do-	Village Salempur, Tehsil & District- Haridwar.	-do-

1	2	3	4	5
4.	General Election to the Parliamentary Constituency of Uttarakhand	05-Haridwar	Sahida Begam, 361, Shastri Nagar, Basant Vihar, Dehradun.	Failure to lodge accounts of election expenses.
5.	-do-	-do-	Pt. Shivam Maharaj, House No. 30/2, Moh. Kayasthan Manglor, District Haridwar.	-do-
6.	-do-	-do-	Sanjay, House No. 38, Tibri, BHEL, Haridwar.	-do-

[No.-76/UK-HP/2009(1)]

By Order,

SHANGARA RAM, Principal Secy.

### आदेश

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2010

**आ. अ. 12.**—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट हरियाणा से हुए लोकसभा के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्वारा निरहित घोषित करता है:—

### सारणी

क्र. सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	लोक सभा का साधारण निर्वाचन-2009	4-हिसार	कृष्ण कुमार सुपुत्र हरिराम, गांव व डा. धान्सू, तहसीन व जिला हिसार ।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
2.	-यथा-	-यथा-	गुलाब सिंह, गांव बाडो पट्टी, तहसील बरवाला, जिला हिसार ।	-यथा-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	लोक सभा का साधारण निर्वाचन-2009	4-हिसार	सतपाल सिंह, मकान नं. 487 पी.एल.ए. हिसार ।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
4.	-यथा-	-यथा-	महता अनूप कुमार, वार्ड नं. 9, नजदीक नया डाकखाना बवानी खेडा, जिला भिवानी ।	-यथा-
5.	-यथा-	-यथा-	आजाद सिंह, गांव खरड अलीपुर, तहसील व जिला हिसार ।	-यथा-
6.	-यथा-	-यथा-	कुलद्वीप सिंह, गांव व डा. भट्टू कलां, जिला फतेहाबाद ।	-यथा-
7.	-यथा-	-यथा-	आर्य कृष्ण, 1031, सैक्टर 13, हिसार ।	-यथा-
8.	-यथा-	-यथा-	देवी लाल, गांव अमरहेडी, डा. अहिरका, जिला जीन्द ।	-यथा-
9.	-यथा-	-यथा-	देवेन्द्र, 321, वार्ड नं. 11, भारत नगर, नजदीक बाल्मिकी मन्दिर, हिसार ।	-यथा-
10.	-यथा-	-यथा-	भजन लाल सुपुत्र धर्मपाल, गांव जीता खेडी, तहसील बवानी खेडा, जिला भिवानी ।	-यथा-
11.	-यथा-	-यथा-	रोहतास, गांव व डा. दुर्जनपुर, तहसील बवानी खेडा, जिला भिवानी ।	-यथा-
12.	-यथा-	-यथा-	श्रवण कुमार, वार्ड नं. 6(9), बाल्मिकी नगर, ठण्डी सड़क, हिसार ।	-यथा-
13.	-यथा-	-यथा-	संजय कुमार, 383-ए, वार्ड नं. 24, सर छोटू राम कालोनी, हिसार ।	-यथा-
14.	-यथा-	-यथा-	संदीप, म. नं. 2082, गोविन्द पैलेस के पीछे, डिफेन्स कालोनी, हिसार ।	-यथा-

[ सं. 76/हरियाणा-लो.स./2009(2) ]

आदेश से,

शंगारा राम, प्रधान सचिव

**ORDER**

New Delhi, the 8th March, 2010

**O. N. 12.**—Whereas, the Election Commission is satisfied that the contesting candidates specified in column (4) of the table below at the General Election to the House of the People held from Haryana in May, 2009 as specified in column (2) and held from constituencies correspondingly specified in column (3) against their names have failed to lodge account of their election expenses, as shown in column (5) of the table, as required by the Representation of the People Act, 1951, and to Rules made thereunder.

And whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission and the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order.

**TABLE**

Sl. No.	Particulars of Election	No. and Name of Parliamentary Constituency	Name and address of contesting candidate	Reason for disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Lok Sabha, 2009	4-Hisar	Shri Krishan Kumar, S/o Hariram, Village & P.O. Dhansu, Tehsil & District, Hisar, Haryana.	Failure to lodge account of election expenses.
2.	-do-	-do-	Shri Gulab Singh, Village Bado Patti, Tehsil Barwala, District, Hisar, Haryana.	-do-
3.	-do-	-do-	Shri Satpal Singh, H. No. 487, P.L.A. Hisar, Haryana.	-do-
4.	-do-	-do-	Shri Mehta Anoop Kumar, Ward No. 9, Near New Post Office Bawani Khera, District Bhiwani, Haryana.	-do-
5.	-do-	-do-	Shri Azad Singh Village Kharar Alipur, Tehsil & District Hisar, Haryana..	-do-
6.	-do-	-do-	Shri Kuldeep Singh, Village & P.O. Bhattu Kalan, District Fatehabad, Haryana.	-do-

1	2	3	4	5
7.	General Election to the Lok Sabha, 2009	4-Hisar	Shri Arya Krishan, 1031, Sector 13, Hisar, Haryana.	Failure to lodge account of election expenses.
8.	-do-	-do-	Shri Devi Lal, Village Amarheri, P.O. Aharika, District, Jind, Haryana.	-do-
9.	-do-	-do-	Shri Devender, 321, Ward No.II, Bharat Nagar, Near Balmiki Mandir, Hisar, Haryana.	-do-
10.	-do-	-do-	Shri Bhajan Lal S/o Dharampal, Village Jeeta Kheri, Tehsil Bawani Khera, District Bhiwani, Haryana.	-do-
11.	-do-	-do-	Shri Rohtas, Village & P.O. Durjanpur, Teh. Bawani Khera, District, Bhiwani, Haryana.	-do-
12.	-do-	-do-	Shri Sharvan Kumar, Ward No.6(9), Balmiki Nagar, Thandi Sarak, Hisar, Haryana.	-do-
13.	-do-	-do-	Shri Sanjay Kumar, 383-A, Ward No.24, Sir Chhotu Ram Colony, Hisar, Haryana.	-do-
14.	-do-	-do-	Shri Sandeep, H.No.2082, Behind Govind Palace, Defence Colony, Hisar, Haryana.	-do-

[No. 76/HN-HP/2009(2)]

By Order,

SHANGARA RAM, Principal Secy.

## आदेश

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2010

आ. अ. 13.—यतः भारत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट केरल राज्य से हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त अभ्यर्थियों में से प्रत्येक को सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने या होने के लिए, इस आदेश की या तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हता घोषित करता है :—

### सारणी

क्र. सं.	निरर्हता का विवरण	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम. सं. व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2009	19-अट्टिंगल	श्री श्रीनाथ, थिरूपथिरा, टी.सी. 84/ यू.ए.आर.ए. 297, 6 वट्टियूरकायू, थिरुवनन्तापुरम ।	अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
2.	-यथा-	-यथा-	श्री जे. विजयाकुमार, रावथे मण्डीराम, 12/197, काराकुल्लम, (पो.आ.), नेदुमंगद	-वही-
3.	-यथा-	-यथा-	श्री श्यासुद्दीन, 34/1851 (63/1866), लालिलाम, एरनाकुल्लम, कोच्चि-12	-वही-
4.	-यथा-	20-तिरुवनन्तपुरम	श्री जी. अशोकेन, ओनेरकोनम वीडु, नेदुमंन्नाम वार्ड, पेरूरक्काडा (पो. आ.)	-वही-
5.	-यथा-	-यथा-	शशी जानकी सदन, जानकी सदन, थरूर (पो. आ.) पलक्कड	-वही-
6.	-यथा-	-यथा-	शशी कलाप्पुरमक्काल, कलाप्पुरक्काल वीट्टल, अरूर (पो.आ.) चेरथला	-वही-

[सं.-76/केरल-लो.स./2009]

आदेश से,

तपस कुमार, प्रधान सचिव

### ORDER

New Delhi, the 8th March, 2010

**O. N. 13.**—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that each of the contesting candidate specified in column 4 of the Table below at the General Election to the Lok Sabha, 2009 from the State of Kerala specified in column 2 and held from the Constituency specified in column 3 against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;



And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order :

**TABLE**

Sl. No.	Particulars of Election	Sl. No. & Name of Parliamentary Constituency	Name & Address of Contesting Candidate	Reasons for Disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Elections to Lok Sabha, 2009	19-Attingal	Sh. Sreeanath, T. C. 84/U.A.R.A 297, 6 Vattiyookkayam, Thiruvananthapuram.	Failed to lodge any account of his election expenses.
2.	-do-	-do-	Sh. J. Vijaya Kumar, Revathy Maniram, 12/197, Karakulam P.O., Nedumangad.	-do-
3.	-do-	-do-	Sh. Shamsudeen, 43/1851 (63/1866), Lalillam, Eranakulam, Cochi-12.	-do-
4.	-do-	20-Thiruvananthapuram	Sri G. Asoken, Oonerkonam Veedu, Nedumbram Ward, Peroortkkada (P.O.).	-do-
5.	-do-	-do-	Sasi Janaki Sadan, Janaki Sadan, Tharoor (P.O.) Palakkad .	-do-
6.	-do-	-do-	Sasi Kalappuramkkal, Kalappurakkal Veetle, Aroor (P.O.) Cherthala.	-do-

[No.-76/KL-HP/2009]

By Order,

TAPAS KUMAR, Principal Secy.